

Date: 09th September, 2020

To, **The Bombay Stock Exchange Limited,** PJ Towers, Dalal Street Mumbai- 400 001 To, **The Calcutta Stock Exchange Limited** 7, Lyons Range, Kolkata- 700 001

Subject: Compliance under Regulation 47 of the Securities and exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

BSE Scrip Code: 540135 CSE Scrip Code: 011278

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Notice of Annual General Meeting of the company for the financial year 2019-20 published in the following newspapers on **09th September, 2020**.

- 1. Financial Express English Newspaper
- 2. Sukhabar Bengali Newspaper

Please take the same on your record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You. Yours Faithfully,

For ARC Finance Limited paone Shar

Aparna Sharma Director DIN No. 07006877

WEDNESDAY SEPTEMBER 9 2020

WUMIST Kakra CFO & Company Secretary

W.r.t the members whose email id's are not registered with the Company/ Depositories:

- Holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.
- Holding shares in physical mode, are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, S.K.D.C. Consultants Limited at green@skdc-consultants.com

The facility to cast votes remotely is arranged through Central Depository Services Limited (CDSL) and the e-voting facility will be available during the following time period:

- Commencement of e-voting period End of e-voting
- : From 9.00 a.m. (IST) on September 27, 2020 Up to 5.00 p.m. (IST) on September 29, 2020

E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 29, 2020 and the remote evoting portal shall be blocked.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, i.e., September 23, 2020 may obtain the User ID and password by sending a request to the email id of CDSL (helpdesk.evoting@cdslindia.com) or email id of S.K.D.C Consultants Limited (green@skdc-consultants.com).

Members, who did not cast their votes through remote e-voting, during the evoting period, will be provided with the electronic voting facility arranged through CDSLto cast their votes while attending AGM through VC/OAVM. The facility for joining the meeting through VC/OAVM shall be kept open at least by 02.45 p.m. on September 30, 2020 and shall remain open till 03.15 PM. Members who have voted through remote e-voting can attend the Meeting but cannot vote again through electronic voting at the Meeting.

In case of any queries/ grievances regarding e-voting, members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent: S.K.D.C Consultants Limited, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore 641006, Tamil Nadu, Phone: +91 422 4958995, 2539835-836, Fax: + 91 422 2539837. Email: info@skdcconsultants.com or Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For SI Capital & Financial Services Limited Sd/ Ramakrishnan T.B, Chairman



Email ID: arcfinancelimited@gmail.com NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE The notice is hereby given that The 38th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No.4, 4th Floor, Room No.3, Kolkata-700001

ARC FINANCE LIMITED

CIN: L51909WB1982PLC035283 Regd. Off. : 18, Rabindra Sarani, Poddar Court Gate No.4, 4th Floor, Room no. 3,

Kolkata-700 001

- on Wednesday, 30th September, 2020 at 02:30 PM to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM: 2. Electronics Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2020 have been
- sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants The dispatch of Notice of AGM has been completed on 08th September, 2020. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the
- cut-off date of 23th September, 2020, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
- The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronics means:
- The remote e-voting shall commence on Sunday, 27th September, 2020 at 09:00 A.M. IST
- The remote e-voting shall end on Tuesday, 29th September, 2020 at 5:00 P.M. IST The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, 23th September, 2020.
- Any person, who acquire shares of the Company and become member of Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Wednesday, 23th September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoling@cdst.co.in. However, If person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently, b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
- i. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) In case or queries, members may reter to the requestly Asked Coestions (FACs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.cdsl.com or call on toll free number 1802005533 or at the designated email ID ; helpdesk.evoting@cdslindla.com, who will address the grilevances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address.

BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain based from Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 oth days inclusive).

For Arc Finance Limited **Dinesh Agarwal** Director

DIN No. 08394760

Chennai

September 09, 2020

vate Equity

ace: Kolkata

te: 08th September, 2020

আনন্দপুরে মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে জখম নীলাঞ্জনার চিকিৎসার খরচ দেবে রাজ্য

NUMBER OF STREET, STRE पहिंदर तक महिलाइक दक्तवाल बार द्यादन לפורים ארגעייר אינגעייל אישאר אלגריאר אינגעיל মমর বলেপেরা উদ্ধ মহিলান করচেন। sever refront or freet sciences every steve exercise পমী সম্ভাবন জনাম। একটামকে মহায় পমী দন, বাঁহ এই সাহসিদতা। সদা মুগ্যমন্ত্ৰীত টাৰ स्वीधनम्बर समितवाद्याः भागवन्त्रि श्रेष्ठा स्वव्यक নীসপ্রদার হালপারাসের মন মাত্র বহন কার্যে non Shara Scotts: «Scottsterinter etta श्रंग, त्यावस त्यास नीगावन प्रदेश गया। यस सार भेड़ि संप्रताल । प्रांतमा राजी राज्यपत साल and the feat armited when anyon WHERE WE NOT A MERCY REPORT OF aliana ato energi serveran serve a Quillera মহিলাকে গাঁৱকে বিয়েই নীলাভনা চটোপামায তরদরন জন্মম মহোহেন। প্রসন্দত, পরিবান নাড ৮টা ATTRE ADDITION OF DISCHARCE ADDITION পারি মার এক মরিলাকে করিবেক গাবে মূরতে মিয়ে মাত্ৰ। প্ৰথমে পাইদিয় এক বেছাৰীয় তাঁৱা গওয়াগওয়া কচেন। এরশান দীর্থন্দশ ভট গাড়িতে চয়ে অজ্যদশ্য, গঢ়িয়া, কালিকাপুর, আনক্ষাগর त्वनंत्रां प्रत्य (rais) अन्यत की प्रहिल गढि प्रकार करा ने दिन्द्र कोलि इन्हों के क

Паки нечализата, «Пані с.», чачна » сильно носо

scoware wereast to an applicate Presence areas

वनिम तमना जित्र सत्मत (सत्त क समित्र भूति प्रमान)

AND A REPORT OF THE PARTY AND A REPORT

মোচে তেন্টে গঢ়েন। পুনিশ করিযুগ্রতক বচকে প্রধানি

চালচের বেরে মূল অভিযুক্ত অন্যবাদ আলি পান বলিয়া

পর পালিয়ে পেয়ে। মঙ্গলার মন্তিগুরের বাহিন চরন

মহিন্দ্র সম ৬ জন্যার পুনিশ রোজনার করেছে। এনিন

store wile an antire cover an i one core.

विभिन्नमध्य मेठ जवानाव आहे. त्यादन सहि। कहा विदेश

REALE ADDRESS CONTRACTOR (REALED ADDRESS) INFRA



water to factory unit to factory without a press राग मितर त्यास पश्चिमाई अधियात्म अल्ला क गरु हिंदर तरबता इन । महिल प्रदेश त्याप Soffware and Some over crice Property अंद्रणसम्बद्ध के द्वीर कही हीन जन्मनदि अनिया ain allocates ullate and fata and Prese Rose will over una Reflexe allow was and over allowe was do भारता कमत मित्र पाठि इमित्र प्रिया भाषिया যায়। জিলে পঢ়ে নীলাভনা চট্টোপালায়ের পায়ে র মাধায় শ্রুরার আগার দাবে। এনিকে এনিনী নীপারুন চটোপানারের অভিযোগের ভিয়িতে surveys state rivinces feath rifes মভিযোগ ধরের করে। এরময়েই পুলিশ মন্টিযুক্তন ব্যবহাৰ কৰা পাঁট বহেমান্ত কলেছে। alien oferers of a strates on after these offering forces where the side

carged around you the evolution. Rolars of a

করের সময় ব্যক্ত প্রায়াচর প্রতিশ সেবচের হবে। মহত

আ উঠু হব। সমালে সেই কাজ ব্যালেন। স্থানীয়

বলিবালে মহিয়েন, মানমান মানি নান ব হয়

भूतिसंह त्यदि भूटव सामग्रि । करिंदाड प्रियंत कडारम्छ स्वतंत

क्रम देखीं। साम्राट्स स्टॉरेन टाल्स्ट्स व्यक्तिमा मदान । त

filts catava flowor wafflow you waven while

whether will receive a state of the first section

whice criter Breveen Rice centers i ranne witho

धनि देखा । एस त्या प्राइने २०१९ छन् छन् भूतिन

নিখিলবন্স শিক্ষক

সমিতির বিক্ষোন্ড

Res science, sciencem

WHERE YOUR REAL COMM

Effertes fease all fair one cause

THE LOWING OF PLOTO STATES

search includes space infilteers त्रद्वाणसंहाल पानी दीन नवननी जनम, र्वायनम्बर स्थल नयी देतान तरम सतः नरम Hatterin weren Stationis warfice, aller গ্যসহায় মহিন্দুৰ মহিলেৰ গাবেল মহেল 2008 -100001 801 (102111-102112) 1021 2021 চেয়ালা নিজ্ঞান একালার এই ঘটনার জন্যায় बाब बिहारक। बार महत्रा गांग, संविधक करा anne mfinten und die mfafrin une मामत हाच हटका गुनिम त्याप्रदाह, यमघ निराह femane with memory and and মভিয়াৰ ভাবে মহিৰাজেৰ পৰিম হয়। ধৰে পাদিলের আছে দিনারিয়া মহিলা বেন মরিয়াক WRENCER ANY THE ANY WERE REPORT OF দিয়ে কোৱা কৰা হাজ। খাঁৱ পাচনাম বেকাৰ্ব কৰা হাছে। অভিযুক্তি চাবেত পৃথিৰ ভিত্তাবৰা করমে। তদে নির্গাচিতার ন্যামে নাম তল সর লেশ কিছু অসমতি পুনি পের মহায় এসেছে। এত 128.21 পৰ্ক হত্যা সম্ভেত কচিস্ঞেন মোন নম্বর চিনি দেননি। অনু তাই নয়, দেশ কিছু uppers wherease of fotflow work করার তেন্দ্রী করেছেন। ফলে নীলায়নার যাহসিকরা মিয়ে কোনো প্রশ্ন মা থাকলেও মূল बहेब फ्रेंच की प्रतेषित का गिंदा काठा विचाल

WHEN THE WAY AND THEFT

মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কুরুচিকর পোস্ট করায় ধৃত ৪ জন सीत तथ, सर्वाश्वतः (मास्टात पूर्वाश्वत দোশান মিনিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী দাম্পৰ্কে NUMBER OF THE OWNER वर्षितराज स्रीत त्यांवल, स्वतः वय, থলিমান বিধাস ও প্রীমার সাসতে तायतन काम पुरित्त। अभि शृतिया त्रम्भ विश्वप्रसा २३ मा आद्यती पुरुषाच versife more wildown over

विधियोगमेन समय गुनित सरे station careful was inferences warphic before appear sometimes ्यान प्रदेत व्यक्ति सामग्री आग FALL WERE REAL AND म्हेर त्यावाडा (वय्तून आयावेट) need any standing states হ'ৰৰ পোই বৰা মেতা পৰিলক જિવિત સહિરાય સહિ સહિયુક્ક ક acit finalis with sit cost गावनीहि जगाजांचात त्यात्र जमाना (২৪ মা ওয়ার্য ভূপমূল জয়োলে। পঞ্চ अत्रक पहिलांग शतात बतात suctions for after when when card arease affeldes we obtain प्रशन्तीत जन्माई मुनिन वकी। रवित, समझ्त्रीतन मितान तनवे centre galiere sone men give Receve gives son care

সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের

বিরুদ্ধে হাওডায় অভিযান

wine Repr. state - onfine will ble Rept. Rept. street Republi

a anaronya gona Posta ayaan cont ayaya waxaa aroo nasayaa

ব্যায় আৰু প্ৰতিষ্ঠা সময়ন মহায় ৫ চাওৱা নিউ প্ৰদিন প্ৰতিষ্ঠান স্থানিক

HAVE I IN REPORT COME WHE PERSON FOR CAUSE INFECSE \$1000, APRIL

Desi cini Desini a wenta ser, masi in Are a masi

पुरुषणकार तत्व मिल्ला प्रक्रियेग्रेस साहर की प्रक्रियेग्र आगः भाष

রাইনারকর্মটোগর 'চার স্পট' রাবিয়ার করা হব। বিপারেট হরেম হরণ।

টাগালে প্ৰেয়াই আই (সিপ্ৰদিনিন) ২০০০ আইচে এমন মেটা ১২০০

महिल्लामधीय मात्र १९४४ दनी ५५४० विश्व महिल्ला महाया प्राप्त लगा

भूदर स्वान त्याप, तम प्रदान प्रदानका प्रदानक विताली प्रतिवाद उत्पादनात

we are save an in white the solution will be a little with the second we

अद्यांग साहम्बन अदयनों हैं जिनकूल आगत हात 6 वास मह त्यन और व्यक्तिय

हात्राम, रवगुप्तै निरमततीत-३ राजनिम शत, युव रामग्री सेन्ट्र∺क्षि

වෙනතා කමටතු කතාවන, පිළුබු කොහැරුම විසා පුරාලික ල කොලා

सक रहा। स्वयंत्र विदावी अधिवांत्र विद्याने स्वित्त क वित

S USA

বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব বাদ দেওয়ায় বাম-কংগ্রেসের বিক্ষোভ

excell whomey scenes will राज्यको स्टनः अञ्चलहा को परिदर নিয়ালগৰ পৰিয়ে গাবে ও কায়েল Remain Roars online a vite तल नदानहीं फ़ल्कमूर्ग लिया विदा নিমসসভায় ভূপমূল কারেচের সাল Infreq H WORK! 1007.0 तां। वतामा गतिर्थिः, वरभाग winearco erite 10040

श्वकल्पतीय सब बाज निरंत निरंतनी लिंगि इन्द्र कारज রন। পলাপানি হারের বার্টারেয়ন ৬ থকে থেবা প্রতিকাস HARD THE PART OF THE SECOND COMPANY OF THE PART OF THE (रहात तरहहा विचटाक क्रिस प्रभावीत होते कारण त्याप्त अने I Stor संरक्ष अन्तरतराज्य महत्व स्टब्स् प्रियंव नित काट्यम ७ मध्यप्रे इंगाली जन्मन चान्द्रत होने where we were at any the party READED AND READERSHIPS AND ADDRESS OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPANTA DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCR ও করেল সিধায়নর একেসেই চিট দিয়েছে। নরেনজি WICH LARCH WHICH BEAUST KIL WINDY WHEN অভিনেতা প্রশ্নোস্কা পর্ণ রাগ মহে যা। অভিযুদ্ধি কার্য্রেই এই সিদ্ধান্ত গলে চালামো মহোছিল। এই অভিযানিক মারিয়ার পানিয়ে মূলত পগতক্ষে কাঁয়োন কর মতম গলে



Report for some men som av a för Fredorika affredeta इलाका भर्न न समझ सक्षत्र तराहर गर्भी इतिह and approx Receipt unstaged work and Store Road wears many ages core, would Restline we way of RD Resonant metals ખી સમેદક પ્રદેશના નર ' વિરાણીકાર પશ્ચિમળા, સરકાર ultream a cost ofte fea genet a steman মন্যান সম্পন্ন সম্বন দিছে শাবনো না । আছ, তলাৰ ও পুরস্পরিদার বিধ্যালয়া গরেট মনিলেন। মচন দ্রানশূর্ণ দিন ও মার্চনাচন এগারে অভিলেচ্য জা মার্চ মা গৰে অগন্ধ বিমান গব্দোপাধায়। জনাম । শীহজালীম whoms leafly wonth a fix wars MONINATO NOT YOUR BEAMING

পশ্চিম বর্ধমান জেলা মহিলা কংগ্রেসের নয়া সভানেত্রী

 निया गर्मसन दावस्था स्ट्रिस करतान waterill Scene anverteen প্রদিশকে প্রাকন প্রাক্তর পারিন meller Delite appendies

মঙ্গলাহাট খোলার

দাবিতে ডেপুটেশন

নিয়াৰ সালসবাৰা, ধাৰণা, মৰলাগা

entry statute weeks? cost o

साटीन समागरत भागित १,००० हेला

step white conversion

राष्ट्रांग्वेम्ब हेन सामग्र को कारणी HERE I HERE HERE AND A YOR HE

अप्रम, इस २० इसका राज्यती alt

REARDANGA GRAN PRACHINAT

Teeder Notice

MIT-08 (81 No. 1 To 41 Dt.

06.88.0080

Fund : 1 INGMREGA, (2020-01)

Ordina Insulin Desurgent

doversioned land data 15:00:2000 FUptic 2 p.m.) for density constant to G.P.CR

na having given

Adaptives Gran Panchase

Sdi Pether

ध्यमा प्रति अन् नवत्य वालः

1134

HP 1001 443

מאגינופר עיליא גנקוב (אנס सन्दरन स्था भडिन शादिन स्थ ধধানমা কাৰী দলে ৬ প্ৰমি নামকে revents style atmen SOLD I MANNER MERINGHOUSE CARE scene wests store works

'no est est utilit ecurre stands from our networks were মতে মালানিক বাহিলে একে পিছিল NO 221000 043 100 101 101

এমরাগ্ড কমানিয়ান নিমিটোর

British sales, and a ready, press party, observe, approximation, wareau E-core - extended core of grant core

कर एक गरीब प्रायमन प्रथम विद्यक्षि, यह द्वारायन को उसकि राज

र प्रतिक सामान के द्वार के प्राप्त के प्राप्त का अपनी का उनका है ताले का सार्थ प्रती के प्राप्त की प्राप्त का प्राप्त का अपनी के प्राप्त का की भीत का दा सिंही के प्राप्त का सीके सिर्फा के प्राप्त कर की भीत का दा सिंही के प्राप्त का सीके सिर्फा के प्राप्त कर है - स्तार भरी न्द्री के प्राप्त की स्वार्त का सार्थ की प्र त्र १२.२० मेर्ड २०१ १२.२० म्युलि स्टा २३.४१ मेर्ड म्युलि स्टा स्टब्स्ट्रीय स्टाल्य 829743 mental involutions of the standard property of a second

the case off-an affects from the test of a to develop a server and the server and the server and the Observers and a server all wheth the server and the observer on the server and the server and the server at any first respect reveal and ensure at,

्रिय (२०१८)व भारतन गांधान ७ विराज प्राण्डीक कार्यकाण मण्डा छुए। १९ हे-त्यारी भारतिब पुराव हुए होविस १० तीरणिक, १०१४, राष्ट्रांस अंध

Installs coulds, waither upon any where is a confirm. Loss were also (argot The staffs, waither upon a second second second second second while it a coupling areas and is statut counted fielding any where we allow only one of the list fielding areas we prove the statut variants is allow any coupling with the staffs, areas we prove the statut variants is allow any coupling with the staffs, areas we prove the statut variants is allowed any coupling with the staffs, areas we prove the statut variants is allowed any coupling with the staffs, areas we prove the statut variants in the statu-rest of the statut variants and the statut variants is allowed any coupling we statut and the statut variants and the statut variants and the statu-rest of the statut variants were the statut variants and the statut variants and the statut variants are statut on the list wait for the statut variants and the statut areas the statut variants are statut variants and the statut variants are allowed with the statut variants are statut on the list wait for the statut variants and the statut variants are statut variants are statut on the list wait for the statut variant variants are allowed with the statut variants are statut on the list waits for the statut variants and the statut variants and the statut variants and the statut variants are statut variants and the statut variants and the statut variants and the statut variants and the statut variants are statut variants and the statut variants are statut variants are

n a Normer accer arcen frey feilines and raise made races in all a file with these administration arcen is affeiler to addition acces

while name programs care a fetty of boards blane angeoge many for most construction and dow fit at - you care out of board water mit

more and lines lightly of

conta non

হাৰ্ড বিদাস লিমিটের

CPU LEVROVAGE INLEY_LOOKERS offer soft, come cold, color 4, opt any version, m 3-com, acceleration international coco

er un effe verer wate feafe, ge grune a't cuffe an

n sivosi ese (n.) Souri an Religa pelha erri भूम सरीक राजसार प्रायम () के बाद , प्रायम प्रायम के प्रायम () क्या () के प्रायम () के प्रायम, () प्रायम () कि बाद , प्रायम प्रायम () क्या के प्रायम () के प्रायम () प्रायम () प्रायम के प्रायम के प्रायम () के प्रायम के प्रायम () के प्रायम के प्रायम () क

Shan, aske will-new polin firster con-

हीन उन्होंन प्रथल प्रवास 6 दिला सम्पतित सर्वत्राज सम्पत ते हे-उन्होंन प्रवीस पुल्स हान सामग्री सरितन 24 उन्होंग्रेज, 24

n-a w beglike ment and second proper listifies are eit enne ve preside poir values

त्रां विश्व प्रायं के स्वर्थने के स्वर्थने के साम स्वर्थने के सिंहत के स्वर्थने के साम स्वर्थने के सिंहत के सा rearse that draps since fea

Pileour boni Weife an a be on the Street and

searche ware progress class a faitty with pulls, their sings uni uneile Sie an and all before the second product of the second se

পেন্দাইত প্ৰতিপাঁৱে মন্দ্ৰ প্ৰমায়ক ও প্ৰথম উপনয় কান্দ্ৰ প্ৰশাসনিকাৰ লো ভূপেয়া ৫০ লোগোঁৱা, ১৯১৯ প্ৰেটি নিন্দ্ৰ মন্দ্ৰাৰ্থাত। পৰিচ ৫ জি বা

Yo area aller, decises

বারাকপুরে করোনাযোদ্ধা পুলিশ কর্মীদের সংবর্ধনা 6) BING (TH, KEIGTS - Dec) HING (TH, KEIGTS - DEC) 1- - W States. ออสสาราคา ๆจ่า หลังพ

स्टालन प्रथम् प्रमान सम्हलना सामन्त्रप्र स्थित करीतन कर পদেশের পরিয়ে ভিনেন । মনলার ব্যারাকণা পৃথিপ কমিন্দারেটো পক तराज सतावन्द्रता नुविन अप्रिमात प्रवास करते विदार नुविन लिप्टल ब्यूपेटन स. हेरला. सारह हुइन २४ । तीम गारामगुद्धाः गुपित महिल्ला २०२३ ४६६ तलम. भारतात्र प्रमायदीत लागमा २२४ वरताव्याणमा मस्मि কর্ত্রালন হোমাল ৬ পালেশর মৃত্যু ৯ ইচনা ব্যক্তিগর ব্যক্ত আনসাইকে ১ त्रांच दिवस करत त्राव्या दांगा त्यांगि त्राण्या स्टीन मंखाय त्राव्या स्टार्थन পুনিল কাঁৰিঃ বিশেষ ৬৪ৰপূৰ্ণ। পুনিল কাঁইনেং মন্য যে পুনিল নিৰমেৰ (राजा कह इरहा) या तल प्रस्ता पीड़ांदे । तई कारका सावद वीजाल পুনিল কর্মীয়া মাজ করনে আৰু জোনো আগান পরিবয়ন ছিল না । আভলা त्ये ताएक मान मनगरन संघृत्व दाकः निष्ठ प्राथमारुष गर्लर तपात भूमिल कडीवा केएला समित काम्यानास काटक काम्याना तरावा स्थानन রিষ্টিবির দলট কটেছে। ১০১৯ লাগের বয়সপুন পুলিশ কবি পুনিশ ভাবের কান্ত করেছিল। সেসমা মারিন পুরুষা দিয়ে সমসা। ছিল, য तम्म मुझ्लमुही प्रेडड्स भाग त्यापा?

-

মহেশতলায় গুলি, মূল অভিযুক্ত অধরা

ধন পুনিশ বিধায় বায় শানিত 🛔 মনের মন্দ্রনিয় বিধায় বার্ষায়। station frippers wates and



সমিতিত হোৱা সম্পালৰ মনিতন্ত্ৰি ONE WARK, SASA 20141 5 RATER OF WERE CONTON तको राज्य काली राज्यत्र दिख स्टने। भूमिदन पर्वतित (DAVITE अग्रमन stat v.c.s. test Press & Presso? नहें चुनित (चल्ड रकिंच) मात तराव হয় ৫২,০০০ জন্য নির্ধাচিত মালচরি rental anders anders turners গোগে মূলকে নালৱান ১০ চিন লাভা নিয়ে হাবে। বাংলার নিশ্বা শেষ্টিয়ের धनाय व पदन करन ताल गायिता হলনে নিজনামের অপন মাশ চেন্দ্রী ear east an ENGS stations प्रसन्न स्वतास भारतीय के प्रेस

ব্রেবোর্ন কলেজে সিট কমানো নিয়ে ক্ষোভ

রিশেষ থাবারণারা, কলকাচা : कडीएटाकी काइगढ र गुराहेक אינגאו ידא נאנא ידי נאנא ***** cen finders when, when a Feelbertry attai westest iffag. none, Rome cases' more Prike Prestrye switch's fell DOG-BOYS WRITE (WHAT BOARDS) costs other Desites while Bills NOR OWNER CORRECT OF A CASE NUMPS, LEDIS (VIE SO warms ander the source and way a second workers.

HORSE 201 THE HEAL HOR

वरामाः २३मा अभितः भूगण्डात other where over some one ODD, ORDER NUMBER (VAL) Visiti ata Noin atari care Torrest torfeet sources गुरुरकांत (सामिक कि पुर कारण) রার কারে। উদ্ধেশ, পুর এবারার speet wetten wije wetten laare weise Sonry 98 extent 3198 (918

NEWS 333

100 201 100 webby, \$5 entrys

protection of the entropy and interve

রানিগঞ্জের শিশু বাগান মোডে জাতীয় সডকে ধস अवराग्द क्षमवाहि मन जगव जातिला।

:110

वरियमंत्र संगतिक, व्यमिगळ জনপথা ব্যক্তিগরের ১০ না জ NAME AND ADDRESS OF THE PARTY কাৰন মেহত ধন নাজ। মনীৰ মতে and print, preventing all write IN NO REPORT OF A SECO भारत प्रकाशनाज त्यादा आराध कारी ধানস আর্থীয় মঙ্গলের মনার প্রায় कम्पि सामग्र करत कर रक्षण करते। OF REPORT AND ADDRESS OF REPORT OF अवस्थल स्वराज वाहीद स्वतन्त्र AND IN ADDI ORDER NOW ध्वतः प्रभीवत्रम् अस्तित्रम् वाहीव THE REPAY HAS READED INCOME. विकारता मात्र साहत्व गा। यह HOMES STA AND DEPUTY OF ANY from a Board, one price a size



ENDER'S PERSONNEL

Statute case when Scene

arts allerane Post areas, "all

were afferen fits were

state name with team

त्वराज्य देवन्दि कहा दाविर्द्यम विका

कडी रहेत कम प्रदित करता लिया

exfece we we are we WORK OTHER ADDRESS SAME FOR HEREWOOD STATE same street from the tes Table events feedbetterse Britantife (day to read to \$400 ADD WHAT HERE ADD TO A DO निका प्रभारत कांग्र राजा अवकार fem normalit and fitte ARRSM'40 DEFINER HIM सार्वदेशरायांगे चयात्राव ७ प्रात्मय an as the there weather all you'll not cold Peer

राजनिताल क फाली निर्मालक (मेरे un pri matter annes aufi गरिरामित्रे हरू करते प्रथम उन्ह

Fernite

NUM CREATE AND CREATE

WWENDE HAN REICH HOLL ধী মহেন মাই সইয়ে দেবাস गरीत की सीडरक

it enter all the with erreif Cefes muste alt sta heiniger Dieferer a melle new warters bigingerer संदर तमयत प्रतिन यह गर्मात गरावने लिंदा पुर पांडांसकि भवत्रा পিয়ে ৰাজ কৰা সমূহ হয়নি কাছজ (अंग्रेशन बात / अन्त्रमेरक, वालीज WARDS CARE ADADD STATE nya ayncus tiplinis feis THE PACE (FORM ADDRESS TO राज्याप्रसार प्रभुत, 'प्रसिद प्रभव असामा तम कड्डा दाता। मीर्थ अदन Carl State of the state 100 ET 412 21406 956 +E 1987 ્વિટ ગામ અને પ્રીપ્ટ કમાર વિદા CAL. of a second state where the second approxite strates and when when sot we explainly visit direction মধ্যে ভাটাবাঁধ নাম নাম মধ্য त्या पारीत महास्व स्थत स writes correction relova wars

ACTU THE LARD HARD

PROVEER POLYFER UMITED নিউ বারাকপুরে সুস্থতার হার বাড়ছে une used, Fill entering Series well once wearsie with The contents) came Fig SAL (BE (BE) (BERTE (NOS 5559 YE WAR AND STREET NUMBER OF THE PARTY OF THE PART Also primite Social a price arrests where the Loss Trees Startings after sense and among with the sas mercan with wiscomi wan wewcen Mile स्टेश्केम पुष्ट सप्रेयम्। मना

WHEE & TRUCK SMICH KOTE रक्षा वासि गान परिष्ठत करता They (RIGHT)

plicited when we will make our women -

l, coll man, pilo pe, peneri - s-s-correcti o la co-co lindo a s-s-swalke per

t gette an site field, gran B-cent word -costfor-an into costa word affigue towards

and off Sound Re-

-carlle asperetti-car tellement pr un a 1961) et 5-carlle Minie singer within a calentet science theses provell effore way.

a ceam (peers) gen qu'edans 122 finit norgino, refs a fit as Webse benefatik new citis on Minis-on Ver

সিমবিধন্ন ইনকেইমেন্ট আৰু ট্ৰেডিং কোম্পানী লিমিটেড

राज्य कींग मन्त्र प्रथम प्रथा निर्माह, कुछ द्वायात की दस्तीं। क्य

e presidente a la contra transmissione e contra contra transmissione e contra transmissione e contra c